



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 288) पटना, सोमवार, 18 मार्च 2024

सं0 3ए-2-वे०पु०-02/2024-2896/वि०
वित्त विभाग

संकल्प
15 मार्च 2024

विषय:- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 द्वारा बिहार अवर योजना संवर्ग के अवर योजना पदाधिकारी का स्वीकृत वेतनस्तर-7 के स्थान पर वेतनस्तर-8 स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना सं०-4025, दि०-09.12.2009 द्वारा बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली, 2009 अधिसूचित है, जिसमें निम्नवत् पदसोपान विहित है:-

क्र०सं०	पदनाम	पदसोपान
1	योजना सहायक (पूर्व पदनाम- वरीय सांख्यिकी सहायक)	मूलकोटि
2	अवर योजना पदाधिकारी (पूर्व पदनाम- सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी)	प्रथम प्रोन्नति का पद

2. योजना सहायक (पूर्व पदनाम- वरीय सांख्यिकी सहायक) एवं अवर योजना पदाधिकारी (पूर्व पदनाम- सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी) का वेतनमान दिनांक-01.01.1996 से अबतक निम्नवत् स्वीकृत है:-

क्र० सं०	पदनाम	दि०-01.01.1996 से स्वीकृत वेतनमान	दि०-01.01.2006 से स्वीकृत वेतनमान	दि०-01.01.2016 से स्वीकृत वेतनस्तर
1.	योजना सहायक (पूर्व पदनाम- वरीय सांख्यिकी सहायक)	5000-8000/-	PB-2+4200/-	Level-7
2.	अवर योजना पदाधिकारी (पूर्व पदनाम- सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी)	5500-9000/-	PB-2+4600/-	Level-7

3. उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि दिनांक-01.01.2016 से वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 द्वारा मूलकोटीय पद **योजना सहायक** (पूर्व पदनाम- वरीय सांख्यिकी सहायक) का वेतनमान दिनांक-01.01.2016 से **PB-2+4200/-** का समान प्रतिस्थानी वेतनस्तर-6 के स्थान पर एक उच्च **वेतनस्तर-7** स्वीकृत किया गया है, जबकि प्रोन्नत पद **अवर योजना पदाधिकारी** (पूर्व पदनाम-सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी) का वेतनमान दिनांक-01.01.2016 से **PB-2+4600/-** का समान प्रतिस्थानी **वेतनस्तर-7** ही स्वीकृत है। इस प्रकार मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पद दोनों के लिए दिनांक-01.01.2016 से एक ही वेतनस्तर-7 स्वीकृत है, जो एक विसंगति है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त बिहार अवर योजना संवर्ग के प्रोन्नति का पद **अवर योजना पदाधिकारी** का दिनांक-01.01.2016 से वेतनस्तर-7 के स्थान पर वेतनस्तर-8 स्वीकृत किया जाता है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 288-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>